

Heb

Chapter 7

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ
यह क्योंकि - मलकिसिदक, राजा शालेम, याजक -के परमेश्वर -के
[G3778](#) [G1063](#) [G3588](#) [G3198](#) [G0935](#) [G4532](#) [G2409](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)
- Ἐπίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοιτῆς τῶν
परमप्रधान, जो मिला अब्राहाम लौटते-हुए -से -की पराजय -के
[G5310](#) [G3588](#) [G4876](#) [G0011](#) [G5290](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2871](#) [G3588](#)
- βασιλέων, καὶ εὐλογῆσας αὐτόν;
राजाओं, और आशीर्वाद-देने-वाला उसे;
[G0935](#) [G2532](#) [G2127](#) [G0846](#)

यह मिलकिसिदक सालेम का राजा था और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। जब इब्राहीम राजाओं को पराजित करके लौट रहा था तो वह इब्राहीम से मिला और उसे आशीर्वाद दिया।

- 2 ὧν καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ. πρῶτον μὲν
जिसे भी दशमांश -से सब बांटा अब्राहाम। पहले तो
[G3739](#) [G2532](#) [G1181](#) [G0575](#) [G3956](#) [G3307](#) [G0011](#) [G4412](#) [G3303](#)
- ἐρμηνευόμενος, βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὁ
अनुवाद-किया-जाता-है, राजा धार्मिकता, फिर परन्तु भी, राजा शालेम, जो
[G2059](#) [G0935](#) [G1343](#) [G1899](#) [G1161](#) [G2532](#) [G0935](#) [G4532](#) [G3739](#)
- ἐστίν βασιλεὺς εἰρήνης;
है राजा शान्ति;
[G1510](#) [G0935](#) [G1515](#)

और इब्राहीम ने उसे उस सब कुछ में से जो उसने युद्ध में जीता था उसका दसवाँ भाग प्रदान किया। उसके नाम का पहला अर्थ है, “धार्मिकता का राजा” और फिर उसका यह अर्थ भी है, “सालेम का राजा” अर्थात् “शांति का राजा।”

- 3 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος; μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν, μήτε ζωῆς τέλος ἔχων;
पिता-रहित, माता-रहित, वंशावली-रहित; न-ही आरम्भ दिनों, न-ही जीवन अन्त रखते-हुए;
[G0540](#) [G0282](#) [G0035](#) [G3383](#) [G0746](#) [G2250](#) [G3383](#) [G2222](#) [G5056](#) [G2192](#)
- ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.
सदृश-किया-गया परन्तु -के पुत्र -के परमेश्वर, रहता-है याजक -के-लिए -के सदा।
[G0871](#) [G1161](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3306](#) [G2409](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1336](#)

उसके पिता अथवा उसकी माँ अथवा उसके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। उसके जन्म अथवा मृत्यु का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के समान ही वह सदा-सदा के लिए याजक बना रहता है।

- 4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ὧν [καὶ] δεκάτην Ἀβραάμ ἔδωκεν, ἐκ τῶν
देखो परन्तु कितना-महान यह, जिसे भी [का] दशमांश अब्राहाम दिया, -से -के
[G2334](#) [G1161](#) [G4080](#) [G3778](#) [G3739](#) [G2532](#) [G1181](#) [G0011](#) [G1325](#) [G1537](#) [G3588](#)
- ἀκροθινίων, ὁ πατριάρχης.
श्रेष्ठ, - कुलपिता।
[G0205](#) [G3588](#) [G3966](#)

तनिक सोचो, वह कितना महान था। जिसे कुल प्रमुख इब्राहीम तक ने अपनी प्राप्ति का दसवाँ भाग दिया था।

5 καὶ οἱ μὲν, ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ, τὴν ἱερατεῖαν λαμβάνοντες, ἐντολὴν
 और जो तो, -से -के पुत्रों लेवी, -को याजकपद प्राप्त-करने-वाले, आज्ञा
[G2532](#) [G3588](#) [G3303](#) [G1537](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3017](#) [G3588](#) [G2405](#) [G2983](#) [G1785](#)

ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαόν, κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ' ἔστιν, τοὺς
 रखते-हैं दशमांश-लेने -को लोगों, -के-अनुसार -के व्यवस्था, यह-है है, -को
[G2192](#) [G0586](#) [G3588](#) [G2992](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#)

ἀδελφούς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ.
 भाइयों उनके, यद्यपि निकले-हुए -से -की कटि अब्राहाम।
[G0080](#) [G0846](#) [G2539](#) [G1831](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3751](#) [G0011](#)

अब देखो व्यवस्था के अनुसार लेवी वंशज जो याजक बनते हैं, लोगों से अर्थात् अपने ही बंधुओं से दसवाँ भाग लें। यद्यपि उनके वे बंधु इब्राहीम के वंशज हैं।

6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν, δεδεκάτωκεν Ἀβραάμ; καὶ τὸν
 जो परन्तु नहीं वंशावली-में-गिना-जाता -से उनसे, दशमांश-लिया अब्राहाम; और -को
[G3588](#) [G1161](#) [G3361](#) [G1075](#) [G1537](#) [G0846](#) [G1183](#) [G0011](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας, εὐλόγηκεν.
 रखने-वाले -को प्रतिज्ञाओं, आशीर्वाद-दिया।
[G2192](#) [G3588](#) [G1860](#) [G2127](#)

फिर भी मिलिकिसिदक ने, जो लेवी वंशी भी नहीं था, इब्राहीम से दसवाँ भाग लिया। और उस इब्राहीम को आशीर्वाद दिया जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ थीं।

7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας, τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος
 बिना परन्तु सब विवाद, - छोटा -के-द्वारा -के बड़े
[G5565](#) [G1161](#) [G3956](#) [G0485](#) [G3588](#) [G1640](#) [G5259](#) [G3588](#) [G2909](#)

εὐλογεῖται.
 आशीर्वाद-दिया-जाता-है।
[G2127](#)

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो आशीर्वाद देता है वह आशीर्वाद लेने वाले से बड़ा होता है।

8 καὶ ὧδε μὲν, δεκάτας, ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι, λαμβάνουσιν; ἐκεῖ δὲ,
 और यहां तो, दशमांश, मरने-वाले मनुष्य, लेते-हैं; वहां परन्तु,
[G2532](#) [G5602](#) [G3303](#) [G1181](#) [G0599](#) [G0444](#) [G2983](#) [G1563](#) [G1161](#)

μαρτυρούμενος ὅτι ζῆ;
 गवाही-दी-जाती-है कि जीवित-है;
[G3140](#) [G3754](#) [G2198](#)

जहाँ तक लेवियों का प्रश्न है, उनमें दसवाँ भाग उन व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो मरणशील हैं किन्तु मिलिकिसिदक का जहाँ तक प्रश्न है दसवाँ भाग उसके द्वारा एकत्र किया जाता है जो शास्त्र के अनुसार अभी भी जीवित है।

9 καὶ, ὡς ἔπος εἰπείν: δι' Ἀβραάμ καὶ, Λευὶ, ὁ δεκάτας λαμβάνων,
 और, जैसे बात कहें: -के-द्वारा अब्राहाम भी, लेवी, जो दशमांश लेने-वाला,
[G2532](#) [G5613](#) [G2031](#) [G3004](#) [G1223](#) [G0011](#) [G2532](#) [G3017](#) [G3588](#) [G1181](#) [G2983](#)

δεδεκάτωται.
 दशमांश-दिया-गया।
[G1183](#)

तो फिर कोई यहाँ तक कह सकता है कि वह लेवी जो दसवाँ भाग एकत्र करता है, उसने इब्राहीम के द्वारा दसवाँ भाग प्रदान कर दिया।

10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ
 अभी क्योंकि -में -की कटि -के पिता था, जब मिला उसे
[G2089](#) [G1063](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3751](#) [G3588](#) [G3962](#) [G1510](#) [G3753](#) [G4876](#) [G0846](#)

Μελχισέδεκ.

मलकिसिदक।

[G3198](#)

क्योंकि जब मिलकिसिदक इब्राहीम से मिला था, तब भी लेवी अपने पूर्वजों के शरीर में वर्तमान था।

11 Εἰ μὲν οὖν, τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς
 यदि तो अतः, सिद्धता -के-द्वारा -की लेवीय याजकपद थी, - लोग
[G1487](#) [G3303](#) [G3767](#) [G5050](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3020](#) [G2420](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2992](#)

γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν
 क्योंकि -पर उस व्यवस्था-पाई, क्या अभी आवश्यकता, -के-अनुसार -की रीति
[G1063](#) [G1909](#) [G0846](#) [G3549](#) [G5101](#) [G2089](#) [G5532](#) [G2596](#) [G3588](#) [G5010](#)

Μελχισέδεκ, ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν
 मलकिसिदक, दूसरा उठने याजक, और नहीं -के-अनुसार -की रीति हारोन
[G3198](#) [G2087](#) [G0450](#) [G2409](#) [G2532](#) [G3756](#) [G2596](#) [G3588](#) [G5010](#) [G0002](#)

λέγεσθαι?

कहलाने?

[G3004](#)

यदि लेवी सम्बन्धी याजकता के द्वारा सम्पूर्णता प्राप्त की जा सकती क्योंकि इसी के आधार पर लोगों को व्यवस्था का विधान दिया गया था। तो किसी दूसरे याजक के आने की आवश्यकता ही क्या थी? एक ऐसे याजक की जो मिलकिसिदक की परम्परा का हो, न कि औरों की परम्परा का।

12 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις
 बदलने-पर क्योंकि -की याजकपद, -से अनिवार्यता भी, व्यवस्था बदलाव
[G3346](#) [G1063](#) [G3588](#) [G2420](#) [G1537](#) [G0318](#) [G2532](#) [G3551](#) [G3331](#)

γίνεται.

होता-है।

[G1096](#)

क्योंकि जब याजकता बदलती है, तो व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए।

13 ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἐτέρας μετέσχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς
 -पर जिस क्योंकि कहा-जाता-है ये, गोत्र दूसरे भाग-लिया, -से जिस कोई
[G1909](#) [G3739](#) [G1063](#) [G3004](#) [G3778](#) [G5443](#) [G2087](#) [G3348](#) [G0575](#) [G3739](#) [G3762](#)

προσέσχηκεν τῷ θουσιαστηρίῳ.
 नहीं-लगा -को वेदी।

[G4337](#)

[G3588](#)

[G2379](#)

जिसके विषय में ये बातें कही गयी हैं, वह किसी दूसरे गोत्र का है, और उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति कभी वेदी का सेवक नहीं रहा।

14 πρόδηλον γὰρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν
 स्पष्ट क्योंकि, कि -से यहूदा उदय-हुआ - प्रभु हमारे, -के-लिए जिस
[G4271](#) [G1063](#) [G3754](#) [G1537](#) [G2448](#) [G0393](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G1519](#) [G3739](#)

φυλῆν, περὶ ἱερέων, οὐδὲν Μωϋσῆς ἐλάλησεν.
 गोत्र, -के-विषय-में याजकों, कुछ मूसा नहीं-कहा।

[G5443](#)

[G4012](#)

[G2409](#)

[G3762](#)

[G3475](#)

[G2980](#)

क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा प्रभु यहूदा का वंशज था और मूसा ने उस गोत्र के लिए याजकों के विषय में कुछ नहीं कहा था।

- 15 Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοίότητα
 और अधिक अभी स्पष्ट है, यदि -के-अनुसार -की समानता
[G2532](#) [G4053](#) [G2089](#) [G2612](#) [G1510](#) [G1487](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3665](#)

Μελχισέδεκ, ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος,
 मलकिसिदक, उठता-है याजक दूसरा,
[G3198](#) [G0450](#) [G2409](#) [G2087](#)

| और जो कुछ हमने कहा है, वह और भी स्पष्ट है कि मिलिकिसिदक के जैसा एक दूसरा याजक प्रकट होता है।

- 16 ὅς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης, γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν
 जो नहीं -के-अनुसार व्यवस्था आज्ञा शारीरिक, बना, परन्तु -के-अनुसार सामर्थ्य
[G3739](#) [G3756](#) [G2596](#) [G3551](#) [G1785](#) [G4560](#) [G1096](#) [G0235](#) [G2596](#) [G1411](#)

ζωῆς ἀκαταλύτου.
 जीवन अविनाशी।
[G2222](#) [G0179](#)

| वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं, बल्कि एक अमर जीवन की शक्ति के आधार पर याजक बना है।

- 17 μαρτυρεῖται γὰρ, ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα, κατὰ τὴν τάξιν
 गवाही-दी-जाती-है क्योंकि, कि तू याजक -के-लिए -के युग, -के-अनुसार -की रीति
[G3140](#) [G1063](#) [G3754](#) [G4771](#) [G2409](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0165](#) [G2596](#) [G3588](#) [G5010](#)

Μελχισέδεκ.
 मलकिसिदक।
[G3198](#)

| क्योंकि घोषित किया गया था: "तू है एक याजक शाश्वत मिलिकिसिदक के जैसा।"

- 18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγωγῆς ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενέας,
 रद्द तो क्योंकि होता-है पहले-वाली आज्ञा, -के-कारण -के उसकी दुर्बलता,
[G0115](#) [G3303](#) [G1063](#) [G1096](#) [G4254](#) [G1785](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0846](#) [G0772](#)

καὶ ἀνωφελές --
 और निरर्थकता--
[G2532](#) [G0512](#)

| पहला नियम इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह निर्बल और व्यर्थ था।

- 19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος ἐπεισαγωγῆ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι'
 कुछ क्योंकि सिद्ध-नहीं-किया - व्यवस्था परिचय परन्तु उत्तम आशा, -के-द्वारा
[G3762](#) [G1063](#) [G5048](#) [G3588](#) [G3551](#) [G1898](#) [G1161](#) [G2909](#) [G1680](#) [G1223](#)

ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ.
 जिस निकट-आते-हैं -के परमेश्वर।
[G3739](#) [G1448](#) [G3588](#) [G2316](#)

| क्योंकि व्यवस्था के विधान ने किसी को सम्पूर्ण सिद्ध नहीं किया। और एक उत्तम आशा का सूत्रपात किया गया जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट खिंचते हैं।

- 20 Καὶ καθ' ὅσον οὐ χωρὶς ὀρκωμοσίας, οἱ μὲν γὰρ χωρὶς
 और -के-अनुसार जितना नहीं बिना शपथ, जो तो क्योंकि बिना
[G2532](#) [G2596](#) [G3745](#) [G3756](#) [G5565](#) [G3728](#) [G3588](#) [G3303](#) [G1063](#) [G5565](#)

ὀρκωμοσίας, εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες,
 शपथ, हैं याजक बने,
[G3728](#) [G1510](#) [G2409](#) [G1096](#)

| यह बात भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने यीशु को शपथ के द्वारा प्रमुख याजक बनाया था। जबकि औरों को बिना शपथ के ही प्रमुख याजक बनाया गया था।

- 21 ὁ δὲ μετὰ ὀρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος, πρὸς αὐτὸν Ὡμοσεν
 जो परन्तु -के-साथ शपथ, -के-द्वारा -के कहने-वाले, -से उसे शपथ-ली
[G3588](#) [G1161](#) [G3326](#) [G3728](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3004](#) [G4314](#) [G0846](#) [G3660](#)
- Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.
 प्रभु, और नहीं पछताएगा, तू याजक -के-लिए -के युग।
[G2962](#) [G2532](#) [G3756](#) [G3338](#) [G4771](#) [G2409](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0165](#)

किन्तु यीशु तब एक शपथ से याजक बना था, जब परमेश्वर ने उससे कहा था, “प्रभु ने शपथ ली है, और वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा: ‘तू एक शाश्वत याजक है।’”

- 22 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης, γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.
 -के-अनुसार उतना भी उत्तम वाचा, बना जामिन यीशु।
[G2596](#) [G5118](#) [G2532](#) [G2909](#) [G1242](#) [G1096](#) [G1450](#) [G2424](#)

इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचा की ज़मानत बन गया है।

- 23 Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ
 और जो तो बहुतेरे हैं बने याजक, -के-कारण -के मृत्यु
[G2532](#) [G3588](#) [G3303](#) [G4119](#) [G1510](#) [G1096](#) [G2409](#) [G1223](#) [G3588](#) [G2288](#)

κωλύεσθαι παραμένειν;
 रोके-जाना रहने;
[G2967](#) [G3887](#)

अब देखो, ऐसे बहुत से याजक हुआ करते थे जिन्हें मृत्यु ने अपने पदों पर नहीं बने रहने दिया।

- 24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει
 जो परन्तु -के-कारण -के रहते वह -के-लिए -के युग, अपरिवर्तनीय रखता-है
[G3588](#) [G1161](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3306](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0165](#) [G0531](#) [G2192](#)

τὴν ἱερωσύνην,
 -को याजकपद,
[G3588](#) [G2420](#)

किन्तु क्योंकि यीशु अमर है, इसलिए उसका याजकपन भी सदा-सदा बना रहने वाला है।

- 25 ὅθεν καὶ, σὺ ζεῖν εἰς τὸ παντελὲς δύναιται, τοὺς προσερχομένους, δι'
 इसलिये भी, बचाने -के-लिए -के सम्पूर्ण समर्थ-है, -को आने-वालों, -के-द्वारा
[G3606](#) [G2532](#) [G4982](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3838](#) [G1410](#) [G3588](#) [G4334](#) [G1223](#)

αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.
 उसके -के परमेश्वर, सदा जीवित-रहते-हुए -के-लिए -के निवेदन-करने -के-लिए उनके।
[G0846](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3842](#) [G2198](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1793](#) [G5228](#) [G0846](#)

अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुँचते हैं, वह उनका सर्वदा के लिए उद्धार करने में समर्थ है क्योंकि वह उनकी मध्यस्थता के लिए ही सदा जीता है।

- 26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερέως, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος,
 ऐसा क्योंकि हमें भी उचित-था महायाजक, पवित्र, निर्दोष, निर्मल,
[G5108](#) [G1063](#) [G1473](#) [G2532](#) [G4241](#) [G0749](#) [G3741](#) [G0172](#) [G0283](#)

κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος;
 अलग-किया-गया -से -के पापियों, और ऊँचा -के स्वर्गों बनकर;
[G5563](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0268](#) [G2532](#) [G5308](#) [G3588](#) [G3772](#) [G1096](#)

ऐसा ही महायाजक हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जो पवित्र हो, दोषरहित हो, शुद्ध हो, पापियों के प्रभाव से दूर रहता हो, स्वर्गों से भी जिसे ऊँचा उठाया गया हो।

27	ὅς जो G3739	οὐκ नहीं G3756	ἔχει रखता-है G2192	καθ' -के-अनुसार G2596	ἡμέραν दिन G2250	ἀνάγκην, आवश्यकता, G0318	ὥσπερ जैसे G5618	οἱ जो G3588	ἀρχιερεῖς, महायाजक, G0749	πρότερον पहले G4386	
	ὑπὲρ -के-लिए G5228	τῶν -के G3588	ἰδίων अपने G2398	ἀμαρτιῶν, पापों, G0266	θυσίας बलिदान G2378	ἀναφέρειν, चढ़ाने, G0399	ἔπειτα फिर G1899	τῶν -के G3588	τοῦ -के G3588	λαοῦ; लोगों; G2992	τοῦτο यह G3778
	γὰρ क्योंकि G1063	ἐποίησεν किया G4160	ἐφάπαξ, एक-बार, G2178	ἑαυτὸν अपने-आपको G1438	ἀνενέγκας, चढ़ाकर। G0399						

जिसके लिए दूसरे महायाजकों के समान यह आवश्यक न हो कि वह दिन प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलियाँ चढ़ाए। उसने तो सदा-सदा के लिए उनके पापों के हेतु स्वयं अपने आपको बलिदान कर दिया।

28	ὁ - G3588	νόμος व्यवस्था G3551	γὰρ क्योंकि G1063	ἀνθρώπους मनुष्यों G0444	καθίστησιν ठहराती-है G2525	ἀρχιερεῖς, महायाजक, G0749	ἔχοντας रखने-वालों G2192	ἀσθένειαν; दुर्बलता; G0769	ὁ - G3588			
	λόγος वचन G3056	δὲ परन्तु G1161	τῆς -की G3588	ὀρκωμοσίας, शपथ, G3728	τῆς जो G3588	μετὰ -के-बाद G3326	τὸν -के G3588	νόμον, व्यवस्था, G3551	Υἱόν पुत्र G5207	εἰς -के-लिए G1519	τὸν -के G3588	αἰῶνα, युग, G0165
		τετελειωμένον. सिद्ध-किया-गया। G5048										

किन्तु परमेश्वर ने शपथ के साथ एक वाचा दिया। यह वाचा व्यवस्था के विधान के बाद आया और इस वाचा ने प्रमुख याजक के रूप में पुत्र को नियुक्त किया जो सदा-सदा के लिए सम्पूर्ण बन गया।